CAPFIN INDIA LIMITED

CIN: L74999DL1992PLC048032

Date: 17.11.2021

Regd. Office: 1C/13, Basement, Rajnigandha Building, New Rohtak Road, New Delhi - 110005 Tel No: 011-28762142; E-mail id: capfinindialtd@yahoo.co.in; Website: www.capfinindia.com

To The Secretary, Listing department **BSE** Limited PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai-400001

SUB: Newspaper Advertisement of publication of Un-Audited Financial results for the Quarter and the half year ended on 30.9.2021

Scrip Code: 539198

Dear Sir / Mam,

Pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement of publication of Unaudited Financial Results for the quarter and the half year ended on 30.09.2021 in the English Daily "Financial Express" and Hindi Daily "Jansatta", both newspapers having electronic editions.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully

Capfin India Limited
For CAPFININDIA LIMITED

(RachitaMantry)

Whole Time Director

Narender Makkar

DIN No. 00026857

Director & Company Secretary

M3M INDIA PRIVATE LIMITED

Registered Office: Unit No. SB/C/5L/Office/008 M3M Urbana, Sector-67, Gurugram Manesar Urban Complex, Gurugram - 122102, Haryana CIN No.: U80903HR2007PTC044491

STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2021 [Regulation 52(8), read with Regulation 52(4) of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

(Rs. In Lacs) Year ended Quarter ended **Particulars** 30 September 2021 31 March 2021 (Unaudited) (Audited) Total Income from Operations 40.058.50 1,71,021.81 (5.851.90) 8 839 68 Profit (Loss) before tax and exceptional items Profit (Loss) before tax and after exceptional items (5.851.90) 39.68 Profit (Loss) after tax (6,739.71)(6,408.14)(6,431.87) Total comprehensive income for the period/year (6.695.59)Paid up Equity Share Capital 4,461.00 4,461.00 Reserve 1.59.535.43 1.67.427.17 Securities Premium Account 2.67.498.00 2,67,498.00 1,63,996.43 1,71,888.17 Paid Up Debt Capital/Outstaning Debt 1,36,777.20 1,02,755.86 Outstanding Redeemable Preference Shares NA NA. Debt Equity Ratio 0.83 0.60 Earning per share Basic and diluted (Rs.) (15.11)(14.36)Capital Redemption Reserve NA NA Debenture Redemption Reserve NA NA. Debt Service Coverage Ratio 0.00 0.09 17 Interest Service Coverage Ratio 0.11 0.97

- 1. The Unaudited Financial Results of M3M India Private Limited for the quarter ended 30th September 2021 have been approved by Board of Directors in their meeting held on 13th November 2021.
- 2. The above is an extract of the detailed quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and M3M India Private Limited i.e. www.m3mindia.com
- 3. For the line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 the pertinet disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com 4. Definition of coverage ratios:
- Debt equity ratio = Debt/(Equity share capital + Other equity) Debt service coverage ratio = Earning before interest and tax/(Interest + Principal repayment)
- Interest service coverage ratio = Earnings before interest and tax/Interest expense
- 5. During the period, there is no change in accounting polices. Hence there is no impact on net profitfloss and total comprehensive income or any other relevant.
- 6. Figures for the previous year/period have been regrouped/recast wherever necessary to conform to current period presentation

For and on behalf of Board of Directors

of M3M India Private Limited Vivek Singhal Whole Time Director (DIN: 05170647)

Date: 13 November 2021

Place: Gurugram



PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC030092

Regd. Off.: 3rd Floor, Gopala Tower 25, Rajendera Place, New Delhi - 110008 Website: www.phoenixindia.com | Email: narendermakkar@yahoo.com | Ph: 011- 25747696

Prince the beautiful to the control of

| | i i | | | | | (Rs. In Lacs | | |
|---|---------------------------------|-------------|---|-----------------------|--|--------------------------|--|--|
| | Consolidated | | | | | | | |
| | Quarter Ended | | | Half Y | Year Ended | | | |
| Particulars | 3 months ended 30.09.2021 | ended ended | Corresponding 3 Months ending in the previous year 30.09.2020 UNAUDITED | 30.09.21 UNAUDITED | Corresponding half year ending in the previous year 30.09.2020 UNAUDITED | year ended 31.03.2021 | | |
| | UNAUDITED | | | | | AUDITED | | |
| Total income from operations (net) | 695.10 | 401.64 | 635.93 | 1,096.73 | 1,246.04 | 2,521.72 | | |
| Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax | 74.79 | (76.44) | 85.46 | (1.64) | 156.39 | 81.03 | | |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) | 73.76 | (77.57) | 85.46 | (3.80) | 154.46 | 76.55 | | |
| Equity Share Capital | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | | |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | - | 020 | 3 9 | 4 | | is the s | | |
| Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted | 0.44 | (0.46) | 0.50 | (0.02) | 0.92 | 0.46 | | |
| Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted | 0.44 | (0.46) | 0.50 | (0.02) | 0.92 | 0.46 | | |

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13.11.2021

LIMITED

| Key Standalone Financial Information: | | 87 | | | | (Rs. In Lacs) |
|---|---|---------------------------------|--|-----------|---|--------------------------|
| | | | STAND | ALONE | - 11 | 200 |
| | | Quarter End | led | Half \ | ear Ended | Year Ended |
| Particulars | 3 months ended 30.09.2021 | 3 months ended 30.06.2021 | Corresponding 3 Months ending in the previous year 30.09.2020 | 30.09.21 | Corresponding half year ending in the previous year 30.09.2020 | year ended 31.03.2021 |
| | UNAUDITED | UNAUDITED | UNAUDITED | UNAUDITED | UNAUDITED | AUDITED |
| Total income from operations (net) | 693.98 | 401.64 | 635.93 | 1,095.62 | 1,246.04 | 2,521.20 |
| Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax | 75.94 | (73.15) | 94.91 | 2.82 | 170.37 | 99.37 |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) | 74.81 | (74.28) | 92.98 | 0.56 | 166.51 | 94.90 |
| Equity Share Capital | 1,678,96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | - | C#03 | | | - | |
| Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted | 0.45 | (0.44) | 0.55 | 0.00 | 0.99 | 0.57 |
| Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted | 0.45 | (0.44) | 0.55 | 0.00 | 0.99 | 0.57 |
| | *************************************** | | | | | |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company's website For Phoenix International Limited

CIN: L74999DL1992PLC048032

Registered Office: PP-1, Gali No.10, Industrial Area, Anand Parnat, New Delhi-110005

Place: Delhi Date: 13.11.2021

SALE

NOTICE

of

Immovable

Property

HERO FINCORP LIMITED CIN: U74899DL1991PLC046774

Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Phone: 011-4948 7150, Fax: 011-4948 7197, 011-4948 7198 Email: litigation@herofincorp.com || Website: www.herofincorp.com NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF

SECURITY INTEREST ACT, 2002

M/s Ridhi Sidhi Graphics Pvt. Ltd. (Borrower), having its Registered Office at C-31/39-E,

Gali No. - 5, New Usmanpur, Near Raghunath Mandir, New Delhi - 110053 and also at D-356, 1st Floor, Sector -10, Noida Dist. Gautam Budh Nagar 201301 (Near Om Vimla

Mr. Dinesh Kumar Pandey (Guarantor), residing at C-31/29-E, Gali No.- 5, New Usmanpur, Near Raghunath Mandir, Garhi Mendu, Bhajanpura, Delhi - 110053. Mr. Pradeep Kumar Pathak (Guarantor), residing at Amrawati Choraha, Gosaipur,

Chakcharia, Vindhyachal Mirzapur Uttar Pradesh - 231307 and also at H. No. - 13, Shri Height Residency - II, Chipiyana, Dadri, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh - 201303. Mr. Ravi Shankar (Guarantor), residing at House No. 115 B, Banvir Kachh, Pratap Garh City, Uttar Pradesh - 230002 and also at House No. 12B, Bihari Colony, Gilhore, Sector-53, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301. (hereinafter referred to as "Borrowers")

The abovementioned Borrowers had entered into Facilities Agreement and Addendum Agreement, both dated 13.03.2020 with M/s. Hero FinCorp Limited (hereinafter referred to as "HFCL") having its Registered Office at 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057, for availing credit facility to the tune of Rs.22,22,000/- (Rupees Twenty-Two Lakhs Twenty-Two Thousand Only) from HFCL, by way of hypothecation of machines listed below in

| S.No. | MachineType/Model No | Dealer/Vendor | Quantity |
|-------|---|-----------------|----------|
| 1. | Ausetter 800 (UV CTCP) with standard accessories (Amsky Make) | Vivid Machinery | 1 |

Asset has been hypothecated to HFCL as security/collateral so as to secure the due repayment of loan together with the interest and other charges. However, the Borrower defaulted in due repayment of Loan alongwith interest and other charges. In this regard, Demand Notice u/s 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (hereinafter referred to as "SARFAESI Act. 2002"), was sent to the last known addresses available of the aforesaid Borrower with HFCL but some of the Notices remained By way of this publication, HFCL hereby once again call upon the above-mentioned Borrowers to

pay the entire outstanding due of Rs.19,65,030.19/- (Rupees Nineteen Lakh Sixty-Five Thousand Thirty and Nineteen Paisa Only) due as on 27.09.2021, within 60 days of the publication of this Notice, falling which HFCL shall take all necessary actions under all or any of the provisions of SARFAESI Act, 2002 against the Secured Asset including taking possession and sale of the Secured Asset of the Borrower and/or Co-borrowers and any other action or relief as may be provided under SARFAESI Act, 2002.

Further, in pursuance to the provisions of Section 13(13) of SARFAESI Act, 2002, the Borrowers are hereby prohibited from selling/transferring or alienating either by way of sale/lease or deal with the aforesaid Secured Asset, in any manner, whatsoever, in contravention with the provisions of aforesaid Loan Agreements and/or SARFAESIAct, 2002.

The Public at large is also hereby informed that they should not deal, in any manner, whatsoever, with the aforementioned Secured Asset as HFCL has the First and Exclusive Charge over the

SASTRA DIVISION, 3rd FLOOR EAST WING,

PLOT NO. 4, 10, DWARKA NEW DELHI (email-horecovery@pnb.co.in)

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS PASSED

IN PROCEEDINGS CONDUCTED AT SYNDICATE ROOM, HEAD OFFICE ON 10.09.2021

In terms of RBI Master Circular no. DBR. No. CIR.BC.22/20.16.003/15-16 dated July

01.2015, a meeting of the Committee for Identification of Willful Defaulters of the Bank

was held on 29.05.2021. The Identification Committee concluded that events of willful default in the Borrower's account(s) had occurred and gave its approval for insurance of

Accordingly Show Cause notice of 15 days was issued on 17.06.2021 to the above

Borrower i.e. M/s Shri Siddhi Vinayak Trading Co. & its above named Proprietor and

Guarantor, responsible for managing the affairs of the Borrower and involved in events of default. They were informed. If they so desire, they can make a representation to the Bank

within 15 days from receipt of notice, as to why they be not classified as wilful defaulters.

Inspite of service of the said show cause notice(s), no reply/representation was made by

The Identification Committee in its meeting held on 10.09.2021, after due consideration

of the facts on record observed that the Borrower and its Proprietor and Guarantors

defaulted in patyment/repayment obligations to the Bank and the said person along with

Show Cause notice for identifying the following persons as willful defaulters.

Date: 16.11.2021 Place: Delhi NCR

CS : Bareilly / ZS : Agra

Date of NPA: 31.03.2019

पंजाब नैष्ट्रनल बैंक

M/s Shri Sidhi Vinayak Trading Co. (Rs. 6.06 Crore)

1. M/s Shri Siddhi Vinayak Trading Co. (Borrower)

the Borrower and its above mentioned Proprietor/Guarantor.

was received from the said person(s) rebutting the charges.

2. Sh. Rachin Gupta (Proprietor)

3. Sh. Sunil Kumar Gupta (Guarantor)

Authorized Officer Hero FinCorp Limited

Date: 04.10.2021

punjab national bank

xôx Karnataka Bank Ltd. Your Family Bank. Across India. Head Office: Mangaluru - 575 002 CIN: L85110KA1924PLC001128

Asset Recovery Management Branch, 8-B, First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060. Phone: 011-40591567 Ext.240 Mobile: 9319891680, E-Mail: delhiarm@ktkbank.com, Website: www.karnatakabank.com

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is here by given to public in general and in particular to Borrower (s) and

Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd. the Secured Creditor on 08.03.2018. will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on 08.12.2021, for recovery of Rs. 71,52,689.30 [Rupees Seventy One Lakhs Fifty Two Thousand Six Hundred Eighty Nine and Paisa Thirty only] i.e. under [A] Rs. 43,97,964.78 under PS Term Loan A/c No.5247001800006301 along with future interest from 27,10,2021, [B] Rs. 20,04,426,71 under Term Loan A/C No.5247001600009501 along with future interest from 11.11.2021, [C] Rs. 7,50,297.81 under Term Ioan A/c No. 5247001600004601 along with future interest from 01.05.2020, Plus Costs, due to the Karnataka Bank Ltd, Moradabad Branch, AE-34, Ram Ganga Vihar, Phase-1, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh. the Secured creditor from (1) Mr. Raj Kumar Singh, S/o Mr. Mohan Singh, (2) Mr. Vineet Kumar Singh, S/o Mr. Raj Kumar Singh, (3) Mr. Brij Kumar Singh, S/o Mr. Mohan Singh, (4) Mrs. Shashi Prabha, W/o Mr. Raj Kumar Singh, (5) Mrs. Meera Vishnoi, W/o Mr. Vineet Kumar Singh, All (1) to (5) are addressed at: Village-Rasoolpur Gujar, Post-Kanth, Moradabad, Uttar Pradesh-244501, being borrowers/ guarantors/co-obligants.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Property No.1: All that piece & parcel of a plot of land measuring 0.384 Hect i.e. 3840 sg.mtr. ¼ part of 1534 Hect of Gata No.45 situated at Village Sirsa That, Teh Kanth, Moradabad, belonging to Mr. Raj Kumar Singh, Boundaries: East: Milk plant of Mohan Singh, West: Chander Pal Singh, North: Road connecting village Sirsa That to Kanth Road, South: Brij Kumar Singh

Reserve Price / Upset Price below which the property may not be sold: Rs. 40,00,000.00/- (Rupees Forty Lakhs only) Earnest money to be deposited / tendered: Rs. 4,00,000.00 (Rupees Four Lakhs Only) Property No.2: All that piece & parcel of residential house measuring 421.02 sq.mts

land, with building constructed thereon, situated at Rasoolpur Gujar Dhyan Singh, Man Nagar Urf Kanth, Moradabad, belonging to Mr. Raj Kumar Singh. Boundaries: East: Plot of Mr. Om Prakash, West: Sarak, North: Haweli Pratap Singh, South: Rasta Reserve Price / Upset Price below which the property may not be sold: Rs.

Earnest money to be deposited / tendered: Rs. 3.20.000.00 (Rupees Three Lakhs Twenty Thousand Only)

(The borrower's/mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of

Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset). (This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security

Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors) For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e., www.karnatakabank.com under the head "Mega Auction on O8th

December 2021". The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 08.12.2021 from 12:00 P.M to 1:00 P.M with unlimited extension of 5 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 07.12.2021) from M/s. 4 closure, 605A, 6th Floor, Maitrivanam, Ameerpet, Hyderbad-500038. Contact Person U. Subbarao, No.040-23836405, mobile 8142000062 / 63, E-mail: subbarao@bankauctions.in and info@bankauctions.in.

Place: Moradabad Date: 15.11.2021

For Karnataka Bank Ltd Chief Manager & Authorised Officer

IMMOVABLE

x Karnataka Bank Ltd.

32.00.000.00 (Rupees Thirty Two Lakhs only)

Your Family Bank. Across India. Head Office: Mangaluru - 575 002 CIN: L85110KA1924PLC001128

ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH: 8-B,First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 E-Mail: delhiarm@ktkbank.com, Phone: 011-40591567 Ext.240 Mob: 9319891680

PROPERTY E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is here by given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged /charged to the secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd, the Secured Creditor on 23.05.2019, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on 08.12.2021, for recovery of

Rs.56,54,346.23 [Rupees Fifty Six Lakhs Fifty Four Thousand Three Hundred Forty Six and Paisa Twenty Three only] under Overdraft Account No.5247000100003201 along with future interest from 01.09.2020, Plus Costs, due to the Karnataka Bank Ltd. Moradabad Branch, AE-34, Ram Ganga Vihar, Phase-1, Kanth Road, Moradabad-244001 Uttar Pradesh, the Secured creditor from (1) M/s Sharanya Overseas by prop Atul Kumar Singh (since deceased) rep by Legal representatives (i) Mrs. Indra Devi. (ii) Mrs. Prachi Vishoni, HIG-10, Ashiyana Phase-I, Moradabad (U.P)-244001 (2) Mrs. Indra Devi W/o Mr. Krishan Kumar Singh, (3) Mrs. Prachi Vishoni W/o Late Atul Kumar Singh, No.2-3 are addressed at:- HIG-10, Ashiyana Phase-I, Moradabad (U.P)-244001 (4) Mr. Dharmendra Kumar S/o Mr. Man Singh, LIG-B-158, Ramganga Vihar, Phase-II, Moradabad-244001, being borrowers/guarantors/co-obligants.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: All that piece & parcel of open plot in Gata No.78 min.81, 83 & 319, measuring 1/20 part of 7.734 hect. Village Fattehpur Vishnoi Teh. Kanth, near road to Village Mehmoodpur in Gram Fatteypur Vishnoi, Dist. Moradabad, belonging to Mrs. Indra Devi Boundaries: East: Khet Indirawati, West: Road, North: Chuck Road, South:

Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold: Rs.28.00.000.00 (Rupees Twenty Eight Lakhs only) Earnest money to be deposited/tendered: Rs.2,80,000.00 (Rupees Two Lakhs Eighty

(The borrower's/mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset). (This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security

Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors) For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e., www.karnatakabank.com under the head "Mega Auction on 8th

The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 08.12.2021 from 12:00 P.M to 1:00 P.M with unlimited extension of 5 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 07.12.2021) from M/s. 4 closure, 605A, 6th Floor, Maitrivanam, Ameerpet, Hyderbad-500038, Contact Person U. Subbarao, No.040-23836405, mobile 8142000062/63, E-mail: subbarao@bankauctions.in and info@bankauctions.in.

For Karnataka Bank Ltd Place: Moradabad Date: 15.11.2021 Chief Manager & Authorised Officer

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th September 2021 | (Rs. in Lacs) Year to date 3 months 3 months figures for **Particulars** ended ended in the the current ended Ended previous year vear ended 30-09-2021 30-06-2021 30-09-2020 31-03-2021 31-03-2020 (Refer Note Below) Unaudited Unaudited Refer Note-5 Audited Audited Income from operation (a)Net sales /Income from Operations (Net of Excise 3.00 Total income from operations (net) 45.54 3.47 15.00 16.79 Expenses (a) Cost of materials consumed (b) Purchase of stock in trade (c) Changes in inventories of finished goods, world (11.74)-In-progress and stock-in-trade (d) Employee benefits expense (e) Depreciation and Amortisation expense 0.45 0.46 0.87 3.83 8.73 Total expenses 41.15 4.84 5.32 10.64 13.46 Profit/(Loss) from operations before other (1.76)(1.85)4.36 3.33 4.39 income, finance costs and exceptional items (1-2) Profit/(Loss) from ordinary activities before (1.76)(1.85)4.36 3.33 finance costs and exceptional items (3+/-4) 3.33 Profit/(Loss) form ordinary activities after finance (1.76)(1.85)4.36 costs but before exceptional items (5+/-6) (1.85)3.33 9 Profit/ (Loss) form ordinary activities before 4.39 (1.76)4.36 tax (7+/-8) 10 Tax expense including Defferd Tax Net Profit/(Loss) from ordinary activities after 4.39 (1.85)3.87 2.57 (1.76)tax (9+/-10) 12 Extraordinary items (net of tax expense (1.85)2.57 Net Profit/(Loss) for the period (11+/-12) (1.76)3.87 14 Share of Profit/(Loss) of associates 6 Net profit/ (Loss) afer taxes, Minority interest and (1.85)2.57 4.39 (1.76)3.87 share of profit/(Loss) of associates (13+14+15)* 7 Other Comprehensive Income 1 (a) Items that will not be reclassified to profit (b) Income Tax relating to items that will not be (34.74) 4.04 reclassified to profit or Loss 2 (a) Items that will be reclassifies to profit or loss (b) Income Tax relating to items that will be reclassified to profit or Loss (c) Prior Period Total Comprehensive Income for the period (30.87)6.61 Paid-up equity share capital (Face value of Rs 286.47 286.47 286.47 286.47 286.47 10/- each Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year 20 Earnings per share(before extraordinary items) (of face value Rs 10/- each) not annualised: (a)Basic 0.15 (0.06) (0.06)0.14 (b) Diluted 0.15 (0.06) 0.14 0.09 (0.06) Earnings per share (after extraordinary items)(of face value Rs 10/- each) not annualised: 0.15 (0.06) (0.06)0.14 0.09 (b) Diluted

0.15 (0.06) (0.06) The above financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetin held on 14th November, 2021 and Statutory Auditors have carried out limited review.

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("IND-AS) notified under sectio 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circulars dated 5th July, 2016. The format for quarterly results as prescribed in SEBI's circular CIR.CFD/CMD/15-2015, dated 30th November, 2015, has bee modified to comply with requirements of SEBI's circulars dated 5th July, 2016.

The above results pertains to the Finanical Segment which is the only business segment of the Company is terms of INE AS 108 on "Operating Segment". The spread of COVID-19 has severly impacted businesses around the globe. In many countries including India, there has been severe disruption to regular business operations due to lockdown, disruptio in transportation, quarantines, social distacning and many other norms. The COVID-19 pandemic is rapidly spreadin throughout the world. Company office was in lockdown since April 20, 2021. Effective in the middle of the June 2021, as pe directives of MHA, wherein some relaxations were announced, the Company made operation its office with 33% capacit taking all the precautions and following all the standard norms. The Company has evaluated its liquidity position and of recoverability and carrying value of its assets and has conducted no material adjustment are requited at this stage in financia staements. There is uncertaininty with regard to its impact which cannot be reasonably determined at this stage. Expenses are recognised in Statement of Profit & Loss using a classification based on the nature of expense method as per

Previuos year's figures have been regrouped wherever necessary to confirm to current period classification Place : Delhi

For Capfin India Limited Rachita Mantr Date: 14.11.2021 (Whole Time Director

para 99 of IND AS-1, presentation of financial staements.

Ph.: 0121-2648151, 2648152 e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com website: www.djrl.org.in

1, Saket, Meerut - 250 003

EVERACE OF STATEMENT OF DEVIEWED STNANGTAL DESILETS FOR THE QUARTER AND HALF VEAR ENDED SEPTEMBER 2021

0.14

0.09

| i - 33 | | 11 | Rs | . in Lacs Ex | cept per S | hare figure |
|---------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| SL. NO. | PARTICULARS | 3-MONTHS ENDED ON 30.09.2021 | CORRESPONDING 3-MONTHS IN THE PREVIOUS YEAR ENDED ON 30.09.2020 | 3-MONTHS ENDED ON 30.06.2021 | Ended | Half Year Ended 30.09.2020 |
| 1 | Total Income from Operations | 389 | 180 | 393 | 783 | 305 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items) | 25 | (53) | 20 | 45 | (136) |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 25 | (53) | 20 | 45 | (136) |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 25 | (53) | 20 | 45 | (136) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | 25 | (53) | 20 | 45 | (136) |
| 6 | Equity Share Capital | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year | | | 9 | | |
| 8 | Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | | | |
| | 1. Basic : 2. Diluted : | 0.62 0.62 | (1.29) (1.29) | 0.48 0.48 | 1.10 1.10 | (3.32) (3.32) |

Notes: 1.

Place : Meerut

Date: 14.11.2021

The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended reviewed financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 for the Quarter and Half Year ended September 2021. The full format of the quarter and half Year ended 30.09.2021 financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.djrl.org.in)

The above results were approved by the Audit Committee of Directors, reviewed by the Statutory Auditors of the Company and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 14.11.2021

For and on behalf of Board of Directors of Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.

Sd/-(Premjit Singh Kashyap) Din: 01664811

Chairman

its Proprietor and Guarantor named above, involved in events of default, are fit to be identified as wilful defaulters on the following grounds specified in above mentioned Master Circular of RBI.

| | | tant follow-up, the Borrower & Guarantor ar oprietor and guarantor are as : |
|------------------|--------------|--|
| Name | Net Means | CR dated |
| Sh. Rachin Gupta | Rs. 3.17 Cr. | 10.09.2018 |

Sh. Sunil Kumar Gupta Rs. 4.87 Cr. Siphoning of Fund :-

Capacity to pay :-

As per stock audit report dated 19.02.2018 (Visit date-16.02.2018) by C.A. Rajeev Shyam & Company and visit report of bank officials dated 14.11.2018 the stock is missing. It shows that the borrower has disposed off the primary security without permission of the bank and sale proceeds were not deposited in the account.

10.09.2018

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS: The Identification Committee headed by the Executive Director and consisting of other members i.e. Chief General Managers and Dv. General Manager of the Bank found that the charges against the Borrower and its above named Proprietor and Guarantor stand


proved for the reasons and facts stated above and no representation reply whatsoever

Therefore, the said Committee recorded the fact of wilful default committed by the above persons mentioned at serial nos. 1 to 3 and identified them as 'Wilful Defaulters', for the cogent reasons mentioned above. However, the Committee members directed that the borrower and its above named Proprietor and Guyarantor are free to make a written representation against the order of identification Committee, within a period of 15 days from the date of receipt of this order to the Review Committee headed by the MD & CEO of the Bank at the following address: Punjab National Bank, SASTRA Division, Corporate Office, 3rd Floor, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi, PIN: 110075

The undersigned is the member of the Identification Committee constituted in consonance with the RBI directives and the Identification Committee has authorized the undersigned to send this ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS under his signature.

Note: Above order has already been sent through registered post on 13/10/2021, 27/10/2021 and 08/11/2021. But returned undelivered

financialexp.epap.in









Thousand Only)





शुद्धिपत्र

जनसत्ता 14 नवंबर, 2021 को प्रकाशित शान्तन् इन्वेस्टमेंटस (इंडिया) लिमिटेड के 30 सितम्बर की सूचना के शीर्षक में कम्पनी का

के वदले शेष सचना यथावत रहेगी।

L65993DL1973PLC006795

'IMPORTANT Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

निविदा सुचना

शासन के आदेशों के अनुपालन में प्राम पंचायत जीला विकास खंड बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर मे

टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 3- प्राइमरी स्कूल नं. १ जीला में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 4- प्राइमरी स्कूल नं. 2 जांला में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 5- प्राइमरी स्कूल नं. 3 जीला में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 6- प्राइमरी स्कूल नं. 1 गढी सखावतपुर में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 7- प्राइमरी स्कूल नं. 2 गढी संखावतपुर में टाइलिकरण (वाल एवं पलोर टाइल्स), 8- जूनियर हाई स्कूल गढ़ी सखावतपुर में टाइलिकरण (वाल एवं पलोर टाइल्स), 9- प्राइमरी स्कूल नं.। जीला में चारदीवारी व गेट निर्माण, 10- पशु चिकित्सालय की मरम्मत कार्य, 11-विद्यालयों में फर्नीचर व्यवस्था , 12-- प्राम पंचायत कार्यालय हेतु फर्नीचर व कम्प्युटर प्रिन्टर आदि विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाले सामग्री जैसे इंटरलाकिंग टाइल्स, ईंट, बालू, सीमेन्ट, उस्ट/कोरसँड, रटोन ग्रिट, लोहा, चनल, सरिया, किराए पर जेसीबी मशीन व डांफर ट्रॅक्टर, वाल पुटटी, समोराम, पेंट, रकुल फर्नीचर, आफिस फर्नीचर व कम्प्यूटर अन्य पेरीफीरल्स सहित क्रय करने हेत् उपरोक्तानुसार निविदाएं विनांक 20-11-2021 साथं 3 बर्जे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन साथ 4 बजे संबन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेगी। निविदा प्रपन्न व शर्तों की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है। संबन्धित कार्य हेतु सामाग्री

ग्राम पंचायत जीला

पंजाब नैशनल बैंक 🥲 Punjab national bank

ऋणी / पार्टनर / बंधककर्ता / गारन्टर के नाम

शस्त्र केन्द्र मण्डल कार्यालय देहरादून (पश्चिम) : प्रथम तल, विधानसभा मार्ग, विधानसभा के सामने, देहरादन

मांग सूचना तिथि

बकाया राशि

(रु. लाखों में)

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सुचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकत अधिकारी के रूप में यह सुचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋर्णियों /गारेंटरों को एतदुदवारा सुचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अतन्र्रात सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

प्रतिभृति / सम्पत्ति का विवरण

दिनांक-15.11.2021 स्थान-देहरादून

प्राधिकृत अधिकारी हिन्दुस्तान एधेसिट्स लिमिटेड

बी-2/8 सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029 टेली: 41650347, फैक्स नं. 011-26191358 ईमेल आईडी : info@bagla-group.com, वेबसाइट: www.bagla-group.com 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

CIN: L74899DL1988PL031191,

| _ि | 5 | | समाप्त तिमाही | | समाप्त | छमाही | समाप्त व |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| सं. | विवरण | 30.09.2021 अनंकेक्षित | 30.06.2021 अनंकेक्षित | 30.09.2020 अनंकेक्षित | 30.09.2021 अनंकेक्षित | 30.09.2020 अनंकेक्षित | 31.03.2 अंकेक्षि |
| 1. | परिचालनों से कुल आय | 10537 | 8502 | 4450 | 19039 | 8969 | 22033 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) | 295 | 404 | 363 | 699 | 631 | 1367 |
| 3. | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 295 | 404 | 363 | 699 | 631 | 1367 |
| 4. | कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद) | 194 | 297 | 172 | 491 | 440 | 875 |
| 5. | अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाम/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) | 194 | 297 | 172 | 491 | 440 | 875 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 7. | आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) | - 1 | - | - | - | - 1 | 3817 |
| 8. | आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरु द्धः प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) | | - | - | - | | _ |
| | क) मूल : | 3.79 | 5.80 | 3.36 | 9.59 | 8.59 | 17.0 |
| | ख) तरल : | 3.79 | 5.80 | 3.36 | 9.59 | 8.59 | 17.0 |

।. उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई. को 14.11.2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये तथा कम्पनी के सांविधिक ऑडिटर ने उस पर अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी की है।

. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत मेट्रापॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट, स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट, अर्थात् बाम्बे स्टॉक एक्सेचैंज लिमिटेड www.bseindia.com कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज www.cse-india.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.bagla-

> बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से हिन्दस्तान एधेसिव्स लिमिटेड हस्ता/-(अमित कुमार) एम.एस. बगला

स्थानः दिल्ली निदेशक प्रबंध निदेशक तिथि: 14.11.2021 DIN:06902856 DIN:01425646

सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बी१/26, सेक्टर-18, बोएडा, गौतम बुद्ध बगर, उ.प्र.-201301 सीआईएन : L25201UP1992PLC018150, दूरभाष स. : 8447772518, वेबसाइट : www.sudev.co.in, ई-मेल: info@sudev.co.in

30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष हेत् अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

| विवरण | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त वित्तीय वर्ष | (लाख म) समाप्त वित्तीय वर्ष |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | 30.09.2021 अलेखापरीवित | 30.09.2020 अलेखापरीक्षित | वष 30.06.2021 अलेखापरीक्षित | वप 31.03,2021 लेखापरीकित |
| प्रचालनों से कुल आय (निवल) | | * | | |
| _{घर उपरान्त} साधारण गतिविधियों से निवल लाभ√(हानि) | (0.520) | (0.340) | (0.430) | (2.287) |
| oर उपरान्त निवल लाभ _/ (हानि) (आपवादिक मदों के उपरान्त) | (0.520) | (0.340) | (0.430) | (2.287) |
| ाल्पसंख्यक ब्याज (एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) का अंश)* | , | | 2 | |
| ञ्र एवं अल्पसंख्यक ब्याज के उपरान्त निवल लाभ/(हानि) | (0.520) | (0.340) | (0.430) | (2.287) |
| ान्य व्यापक आय | 4 | 4000.000 | MESISTA A | |
| ावधि हेतु कुल व्यापक आय | (0.520) | (0.340) | (0.430) | (2.287) |
| ामता अंश पूंजी | 350.074 | 350.074 | 350.074 | 350.074 |
| आरक्षितियां (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) आय प्रति अंश (रु. १०/– प्रत्येक का) | | | * | (366.937) |
| . मूल : | 120 | | 945 | |
| 2. तनुकृत : | (0.012) | (0.008) | (0.010) | (0.050) |

टिप्पणीः उपरोक्त जो है वो सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम ३३ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का एक निष्कर्ष है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात (www.bseindia.com) एवं कंपनी की वेबसाइट (www.sudev.co.in) पर उपलब्ध है।

> कृते सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता./-राजीव अग्रवाल

बोर्ड के आदेश द्वारा

निदेशक स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक : 14.11.2021 (डीआईएन : 00929463) CAREINI INIBIA

| ST | LIMITED Registered Office: PP-1, ATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR | | | | | (Rs. in Lacs |
|----------|---|-------------------|--|---|--|--|
| 31 | ATEMIENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR | THE QUART | EK ENDED | Corresponding | | (NS. III Lacs |
| S. N. | Particulars | 3 months ended | Preceding 3 months ended 30-06-2021 | 3 months ended in the previous year 30-09-2020 | figures for the current year ended 31-03-2021 | Previous Year Ended 31-03-202 |
| - | (Refer Note Below) | Unaudited | Unaudited | Refer Note-5 | Audited | Audited |
| 4 | | Unaudited | Unaudited | Kerer Note-5 | Audited | Audited |
| ١, | Income from operations (a)Net sales /Income from Operations (Net of Excise | 44.20 | 2.00 | 2.27 | 12.04 | 12.70 |
| | Duty) | 44.30 | 3.08 | 3.37 | 13.84 | 13.79 |
| - 1 | (b) Other operating income | 1.24 | | 0.10 | 1.16 | 3.00 |
| - 1 | Total income from operations (net) | 45.54 | 3.08 | 3.47 | 15.00 | 16.79 |
| _ | Expenses | 45.54 | 3.06 | 3.47 | 15.00 | 10.79 |
| 2 | (a) Cost of materials consumed | | | | | |
| ı | 0.7 | - | - 3 | 2 5 | | |
| ı | (b) Purchase of stock in trade | 50.97 | - 1 | - 3 | | |
| | (c) Changes in inventories of finished goods, work -In-progress and stock-in-trade | (11.74) | - | - | - | - |
| ı | | 1.05 | 1.01 | 1.27 | 3.82 | 4.27 |
| ١ | (d) Employee benefits expense | 1.05 | 1.01 | 1.27 | 1 | |
| | (e) Depreciation and Amortisation expense | 0.07 | - 1 | - | 0.45 | 0.46 |
| | (f) Other expenses | 0.87 | 3.83 | 4.05 | 6.37 | 8.73 |
| | Total expenses | 41.15 | 4.84 | 5.32 | 10.64 | 13.46 |
| 3 | Profit/(Loss) from operations before other income, finance costs and exceptional items (1-2) | 4.39 | (1.76) | (1.85) | 4.36 | 3.33 |
| 4 | other income Profit/(Loss) from ordinary activities before | 4.39 | - (1.76) | - (1.85) | 4.36 | 3.33 |
| | finance costs and exceptional items (3+/-4) | 4.55 | (1.70) | (1.03) | 4.50 | 3.33 |
| | Finance costs | 15 77 | | · · · | - 1 | - |
| 7 | Profit/(Loss) form ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5+/-6) | 4.39 | (1.76) | (1.85) | 4.36 | 3.33 |
| | Exceptional Items | 8 - 2 | | | | - |
| 9 | Profit/ (Loss) form ordinary activities before tax (7+/-8) | 4.39 | (1.76) | (1.85) | 4.36 | 3.33 |
| 10 | Tax expense including Defferd Tax | | - | - | 0.49 | 0.76 |
| | Net Profit/(Loss) from ordinary activities after | 4.39 | (1.76) | (1.85) | 3.87 | 2.57 |
| . | tax (9+/-10) | | ` ′ | | | |
| 12 | Extraordinary items (net of tax expense) | 1 5 | - 1 | - 1 | | - |
| 13 | Net Profit/(Loss) for the period (11+/-12) | 4.39 | (1.76) | (1.85) | 3.87 | 2.57 |
| 14 | Share of Profit/(Loss) of associates* | | - | | | - |
| 15 | Minority Interest* | 1 - 8 | - 1 | - 1 | - 0 | - |
| _ | Net profit/ (Loss) afer taxes, Minority interest and share of profit/(Loss) of associates (13+14+15)* | 4.39 | (1.76) | (1.85) | 3.87 | 2.57 |
| 17 | Other Comprehensive Income | 4 5 | | | | |
| | 1 (a) Items that will not be reclassified to profit | | - | - | - 8 | - |
| | or Loss | | | | | |
| Ì | (b) Income Tax relating to items that will not be | - | - 1 | - | (34.74) | 4.04 |
| ļ | reclassified to profit or Loss | 4 | | | | |
| | 2 (a) Items that will be reclassifies to profit or loss | 3 - 3 | - | - 3 | 100 | |
| | (b) Income Tax relating to items that will be reclassified to profit or Loss | | - 1 | | 11 | - |
| | (c) Prior Period | | | | | |
| | | | | - | (30.07) | - |
| 10 | Total Comprehensive Income for the period | 206.47 | 206.47 | 200.47 | (30.87) | 6.61 |
| | Paid-up equity share capital (Face value of Rs 10/- each) | 286.47 | 286.47 | 286.47 | 286.47 | 286.47 |
| 19 | Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year | 14.40 | 14.40 | 45.27 | 14.40 | 45.27 |
| 20 | Earnings per share(before extraordinary items) | 11 | - | | | |
| i | (of face value Rs 10/- each) not annualised: | | | | | |
| 1 | (a)Basic | 0.15 | (0.06) | (0.06) | 0.14 | 0.09 |
| 1 | (b) Diluted | 0.15 | (0.06) | (0.06) | 0.14 | 0.09 |
| 20 | Earnings per share (after extraordinary items)(of | 5.15 | (5.55) | (0.00) | 9117 | 3.03 |
| | face value Rs 10/- each) not annualised: | | | | | |
| ii I | | | | | | |
| ii | (a)Basic | 0.15 | (0.06) | (0.06) | 0.14 | 0.09 |

The above financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November, 2021 and Statutory Auditors have carried out limited review.

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("IND-AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circulars dated 5th July, 2016. The format for quarterly results as prescribed in SEBI's circular CIR.CFD/CMD/15-2015, dated 30th November, 2015, has bee

modified to comply with requirements of SEBI's circulars dated 5th July, 2016. The above results pertains to the Finanical Segment which is the only business segment of the Company is terms of INI AS 108 on "Operating Segment". The spread of COVID-19 has severly impacted businesses around the globe. In man countries including India, there has been severe disruption to regular business operations due to lockdown, disruption in transportation, quarantines, social distacning and many other norms. The COVID-19 pandemic is rapidly spreading throughout the world. Company office was in lockdown since April 20, 2021. Effective in the middle of the June 2021, as pe directives of MHA, wherein some relaxations were announced, the Company made operation its office with 33% capacit

taking all the precautions and following all the standard norms. The Company has evaluated its liquidity position and c recoverability and carrying value of its assets and has conducted no material adjustment are requited at this stage in financial staements. There is uncertaininty with regard to its impact which cannot be reasonably determined at this stage. Expenses are recognised in Statement of Profit & Loss using a classification based on the nature of expense method as pe

para 99 of IND AS-1, presentation of financial staements Previuos year's figures have been regrouped wherever necessary to confirm to current period classification

For Capfin India Limited Rachita Mantry (Whole Time Director) Date: 14.11.2021

सार्वजनिक सूचना भ्राम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 16th November 2021 को (बंधक आमुषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 9th December 2021 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसुचित किया जा चुका है। किसी भी

स्पष्टीकरण के लिए, इच्छ्क व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्के कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

अनुसूची । प्ररूप ए सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

| 7 | र्गेंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्रा | इवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ |
|----|--|---|
| 1. | कार्पोरेट व्यक्ति का नाम | सैंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि | 26 अक्टूबर 2012 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा |
| 4. | कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या | U26100HR2012FTC047499 |
| 5. | कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्योलय (यदि कोई हो तो) का पता | प्लॉट नंबर 278, चौथी मंजिल, उद्योग विहार फेज—॥, गुरुग्राम, हरियाणा — 122015 |
| 6. | कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि | 12 नवंबर 2021 |
| 7. | परिसमायक का नाम, पता, ई—मेल पता, दूरभाश संख्या तथा पंजीकरण संख्या | नाम : अखिल चड्डा पता: 89, पुष्पांजलि अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 10, सैक्टर —4, द्वारका, नई दिल्ली — 110078 ईमेल आईडी : chadhakhil@gmail.com पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00917/2020-21/13068 |
| g | टावे जमा करने की शक्तिम विशि | 42 टिग्रांबर 2024 |

है। दावे जमा करने की अन्तिम तिथि 12 दिसंबर 2021 एतद्वारा सुचना दी जाती है कि सैंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 12 नवंबर 2021 को स्वैच्छिक

सैंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डितधारकों को एतद्वारा मद ७ के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **12 दिसंबर 2021** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है । वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे । अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं । हस्ता/-दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

अखिल चट्टा तिथि : 18 नवंबर 2021 परिसमापक, सेंटल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्थान: नई दिल्ली पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00917/2020-21/13068

APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED APEX (Formerly Apex Home Finance Limited) CIN: L65910DL1985PLC021241

Regd. Office: L-3, Green Park Extension, New Delhi – 110016 Email: contact@apexfinancials.in: Website: www.apexfinancials.in Tele-Fax: +91 11 40348775

EXTRACTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2021

Quarter | Half Year |

PARTICULARS Ended Ended Ended 30/09/2020 30/09/2021 | 30/09/2021 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 129.20 258.7 121.34 1 Total Income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before 9.64 25.10 21.37 Tax, Exceptional and/or Extraordinary items 3 Net Profit/(Loss) for the period before tax 9.64 25.10 21.37 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax 15.81 7.32 18.26 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 18.26 15.81 Total Comprehensive Income for the 7.32 period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital 592.00 592.00 591.99 (Face Value of Rs. 10/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic (Rs.) 0.31 0.12 Diluted (Rs.) 0.31 0.12 0.27

Notes:

Date: 14.11.2021

Place: New Delhi

- 1. The above unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2021 have been reviewed and recommended by the Audi Committee in its meeting held on 14.11.2021 and thereafter approved and taken or record by the Board of Directors in its meeting held on 14.11.2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid financial
- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2021 are available on the Stock Exchange Website at www.bseindia.com and on the Company's Website a www.apexfinancials.in.

By the Order of the Board For Apex Capital and Finance Limited (Shekhar Singh)

Managing Director DIN: 0003956

हिन्दुस्तान एवरेस्ट ट्रल्स लि. पंजी. एवं मुख्य कार्यालय : 4/11, प्रथम तल. आसफ अली रोड. नई दिल्ली-110002 (भारत) CIN:L74899DL1962PLC003634, फोन: +91-9910032394 ई-मेल : admin@everesttools.com, वेबसाईट : http://www.everesttools.com

30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में, प्रति शेयर डैटा को छोडकर)

| | समाप्त | तिमाही | समाप्त व | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| विवरण | 30-09-2021 (अलेखापरीक्षित) | 30-09-2020 (अलेखापरीक्षित) | 31-03-2 (लेखापरी | |
| परिचालनों से कुल आय (निवल) | 255.95 | 23.65 | 554.10 | |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर, विशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदों से पूर्व#) | 29.36 | -21.47 | 296.69 | |
| कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#) | 29.36 | -21.47 | 441.79 | |
| कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद#) | 36.16 | -17.89 | 374.44 | |
| असतत परिचालनों से कर से बाद अवधि के लिये अवरुद्ध प्रचालनों से शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#) | 27.51 | | -1.46 | |
| अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये (कर से बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद से शामिल) | 524.85 | -17.89 | 372.98 | |
| प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (ॲकित मूल्य रु. 10/- प्रति) | 160.72 | 160.72 | 160.72 | |
| अन्य इक्विटी | | | 1850.7 | |
| सतत प्रचालनों से आय/(हानि) प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं) | | | | |
| क) मूल (रु.) | 2.25 | -1.11 | 23.30 | |
| ख) तरल (रु.) | 2.25 | -1.11 | 23.30 | |
| अवरुद्ध प्रचालनों से आय/(हानि) प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं) | | | | |
| क) मूल (रु.) | 1.71 | - 2 | (0.09) | |
| ख) तरल (रु.) | 1.71 | - " | (0.09) | |
| जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों से आय/(हानि) प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं) | | - 17 | | |
| क) मूल (रु.) | 3.96 | -1.11 | 23.21 | |
| ख) तरल (रु.) | 3.96 | -1.11 | 23.21 | |
| टिप्पणी: | | | | |

को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक लेखापरीक्षकों

ने इस विवरण पर असंशोधित विचार जारी किए हैं। 2. इन वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत निर्मित संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम् 2013 की धारा 133 तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अंतर्गत निर्दिष्ट

भारतीय लेखा मानक के पहचान तथा मापन के सिद्धातों के अनुसार तैयार किया गया है। s. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल तिमाही तथा छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा छमाही स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.everesttools.com पर उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लि

देवांश गुप्त

तिथि: 16 नवम्बर, 2021

DIN: 06920376

Place: New Delhi

Date: 15.11.2021

2021 को समाप्त तिमाही और छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों सीआईएन न.-

L45100DL1973PLC006795 पदा जाए असविधा के लिए खेद है।

शञ्य विला आयोग/केन्द्रीय विला आयोग, मनरेगा एवं अन्त्येष्टि स्थल विकास के अन्तर्गत कराये जाने वाले निम्न कार्यो हेत् कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति किए जाने हेत् जीएसटी पंजीकृत फर्मो/सप्लायरों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। 1- ग्राम गढ़ी सखावतपुर जीला में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण, 2- ग्राम पंचायत सचिवालय में

आपूर्ति की निविदा की सूचना विना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहरताक्षरी को होगा।

ग्राम पंचायत जीला विठखंठ बुढाना (मुठनगर)

विठखंठ बुढाना (मुठनगर)

जएमजी कापरिशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 574, 2रा तल, मैन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 वेबसाईटः www.jmg-corp.in, ई-मेलः info@jmg-corp.in

30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही 30.9.2021 (अनंकेक्षित) | समाप्त छमाही 30.9.2021 (अनंकेक्षित) | समाप्त तिमाही 30.9.2020 (अनंकेक्षित) | समाप्त वर्ष 31.3.2021 (अंकेक्षित) |
|-------------|---|--|---|---|--|
| 1 | प्रचालनों से कुल आय (नीचे टिप्पणी 2 देखें) | 96.43 | 190.41 | 137.75 | 602.71 |
| 2 | कर से पूर्व शुद्ध लाभ/ (हानि) | (29.73) | (28.96) | (23.00) | (127.69 |
| 3 | कर से बाद शुद्ध लाभ/ (हानि) | (29.73) | (28.96) | (23.00) | (127.69 |
| 4 | कुल व्यापक आय | (29.73) | (28.96) | (23.00) | (129.69 |
| 5 | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (सम मूल्य 2.5/- प्रति) | 578.95 | 578.95 | 495.00 | 578.9 |
| 6 | आय प्रति शेयर (रु. 2.5/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं) | | | | 5.4.00 |
| | क. मूल ईपीएस (रु.) | (0.128) | (0.125) | (0.116) | (0.560 |
| | ख. तरल ईपीएस (रु.) | (0.128) | (0.125) | (0.116) | (0.560 |

के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट www.jmg-corp.in तथा की स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। 2. प्रचालनों से कल आय केवल प्रचालनों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से

For the

स्थानः नर्इ दिल्ली तिथि: 15 नवम्बर, 2021

(प्रबन्ध निदेशक) डीआईएन: 00297681

अतुल कुमार मिश्रा

(Amount in Rupees)

For the Six For the Year

Amitabh Hirawat, Managing Director

DIN: 00349697

RISHAB SPECIAL YARNS LIMITED CIN: L1711RJ1987PLC004067

For the

Regd. Office: 2070, Rasta Bara Gangore, Jaipur-302003 Email: rsyltd@gmail.com Phone & Fax No.: 0141-2575213, CIN: L1711RJ1987PLC004067 Visit us at : www.rishabspecial.com EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2021

For the

| Particulars | 30.09.2021 | 30.06.2021 Un-Audited/ Reviewed | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 31.03.2021 Audited | |
|---|--|--|---|-------------------------|--|--|--|
| | Un-Audited/ Reviewed | | Un-Audited/ Reviewed | Un-Audited/ Reviewed | Audited | | |
| Total Income | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | |
| Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Ex- traordinary items#) s | (2.457) | (5.987) | (1.816) | (8.443) | (11.813) | (11.813) | |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) | 72.147 | (5.987) | (1.816) | 66.161 | 61.929 | 61.929 | |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (af- ter Exceptional and/or Extraordinary items#) | 72.147 | (5.987) | (1.816) | 66.161 | 47.497 | 47.497 | |
| (after tax) and Other | 72.147 | (5,987) | (1.816) | 66,161 | 47.497 | 47.497 | |
| No. of Equity Share Capital | 3560700 | 3560700 | 3560700 | 3560700 | 3560700 | 3560700 | |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | (342.64) | (342.64) | (394.70) | (342.64) | (342.64) | (342.64) | |
| | Total Income Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) s Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] No. of Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the | Particulars 30.09.2021 Un-Audited/ Reviewed Total Income Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) s Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] No. of Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the | Particulars 30.09.2021 30.06.2021 Un-Audited/Reviewed Reviewed Total Income 0.000 0.000 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) s Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] No. of Equity Share Capital 3560700 3560700 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the | Particulars | Particulars 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2020 Un-Audited/Reviewed Un-Audited/Reviewed Un-Audited/Reviewed Un-Audited/Reviewed Reviewed Un-Audited/Reviewed Un-Audi | Particulars 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2021 | |

operations) of Rs. 10/-2.026 (0.051)1.858 1.334 1. - Basic (0.168)(0.179)2.026 1.858 (0.168)(0.051)(0.179)1.334 Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange(s) http://www.bseindia.com/corporates/

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable For RISHAB SPECIAL YARNS LIMITED

Comp_Resultsnew.aspx?expandable=3 and the company www.rishabspecial.com

Date: 15.11.2021 Place: Jaipur

Earnings Per Share

(of Rs.10/- each (for continuing

and discontinued

FRUITION VENTURE LIMITED

CIN-L74899DL1994PLC058824 Regd. Off:- 21-A, III Floor Mukherjee Nagar, Commercial Complex, Delhi-110009 Tel No. +91-11-27468600, Web: www.fvl.co.in, Email: csfruitionventure@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30.09.2021

| (Rs. In La | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sr. No. | Particulars | Quarter ended 30.09.2021 (Un- Audited) | Quarter ended 30.06.2021 (Un- Audited) | Quarter ended 30.09.2020 (Un- Audited) | Half Year Ended 30.09.2021 (Un- Audited) | Half Year Ended 30.09.2020 (Un- Audited) | Year ended 31.03.2021 (Audited) | Year ended 31.03.2020 (Audited) | | |
| 1 | Total income from operations | 15.39 | 12.94 | 0.82 | 28.34 | 2.99 | 26.97 | 184.47 | | |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | 1.11 | 54.42 | -2.85 | 55.53 | 10.66 | 54.48 | -164.02 | | |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 1.11 | 54.42 | -2.85 | 55.53 | 10.66 | 54.48 | -164.02 | | |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | -3.06 | 41.30 | -2.52 | 38.24 | 3.82 | 33.78 | -134.78 | | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)] | -13.45 | 56.50 | -5.57 | 43.04 | 8.87 | 38.16 | -226.39 | | |
| 6 | Equity Share Capital | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | 185.76 | 188.82 | -3.05 | 185.76 | 93.74 | 147.52 | 113.74 | | |
| 8 | Earning per share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)- (a) Basic : (b) Diluted: | -0.08 -0.08 | 1.03 1.03 | -0.06 -0.06 | 0.96 0.96 | 0.10 0.10 | 0.84 0.84 | -3.37 -3.37 | | |

The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. www.bseindia.com

There is no exceptional or extra-ordinary items during the reporting period.

Fruition Venture Limited Sanhit Jain

Director DIN: 05338933

Place : Delhi

By order of the Board

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

www.readwhere.com

CIN: L31104DL1989PLC362504, Tel.: 011-41834411, 41834111